



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 9] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 26—मार्च 4, 2005 (फाल्गुन 7, 1926)
No. 9] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 26—MARCH 4, 2005 (PHALGUNA 7, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices
of the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110069, दिनांक 24 जनवरी 2005

सं. ए. 19014/1/05-प्रशा. 1--राष्ट्रपति, श्री एस. एस. राणा, के.स.
से. को संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में 7 जनवरी, 2005 के
पूर्वाह्न से अगले आदेश तक उप सचिव (तदर्थ) के रूप में नियुक्त
करते हैं।

एस. आनंदन
अवर सचिव (प्रशा.)

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 9 फरवरी 2005

सं. डीपी/पर्स. 1/2005/18/3/50/90-पर्स-1--श्री के. प्रभाकर ने
अधिवर्षिता पर 31.1.2005 अपराह्न से पुलिस उपाधीक्षक, केन्द्रीय
अन्वेषण ब्यूरो के पद का कार्यभार त्याग दिया।

एस. डी. बैजल
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

दिनांक 31 जनवरी 2005

सं. ए. 38012/5/04-प्रशा. 1--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग में
उप सचिव के रूप में कार्यरत श्री सी.बी. प्रसाद, केन्द्रीय सचिवालय
सेवा की अधिवर्षिता की आयु हो जाने पर उन्हें दिनांक 31 जनवरी,
2005 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति की अनुमति प्रदान
करते हैं।

एस. आनंदन
अवर सचिव (प्रशा.)

गृह मंत्रालय

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 10 फरवरी 2005

सं. ओ-दो-1082/78-सीआरसी(एमओ)--डाक्टर मोहननिमये, मुख.
चिकित्सा अधिकारी (एन०एफएसजी-आईआरएलए-1649)
102 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस ने स्वेच्छा से सेवा निवृत्त होने

पर दिनांक 01.02.2005 (पूर्वाह्न) को अपने पद से कार्यभार त्याग दिया। उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 01.02.2005 पूर्वाह्न से निकाला जाता है।

जे.एन. शर्मा
अपर पुलिस उपमहानिरीक्षक
(कार्मिक-एक)

समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार)

नई दिल्ली-3, दिनांक 2 फरवरी 2005

सं. ए-17011/25(एच-10)/2004-प्रशासन-1--इस निदेशालय के श्री हंसराज, वरिष्ठ लेखा अधिकारी अपनी अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर दिनांक 31.01.2005 अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

कमलेश डेका
निदेशक, पुलिस दूरसंचार

महानिदेशालय
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-03, दिनांक 9 फरवरी 2005

सं. ई-16015(2)/2/2003/कार्मिक. 1/04--राष्ट्रपति, श्री एन किंडो, निरीक्षक/अनुसचिवीय, को पदोन्नति पर के.औसुब में सहायक कमांडेंट (कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी) के पद पर 8000-275-13500/- रुपये के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं। वे के.औसुब पूर्वी क्षेत्र मुख्यालय पटना में तैनात हैं, जहां उन्होंने दिनांक 28 जनवरी 2005 के पूर्वाह्न से सहायक कमांडेंट (कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी) के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/के.औसुब

दिनांक 11 फरवरी 2005

सं. ई-16015(2)/1/2002/कार्मिक.1/05--राष्ट्रपति, श्री वी. के. थापा, वरिष्ठ कमांडेंट, को पदोन्नति पर के.औसुब में उप महानिरीक्षक के पद पर 16,000-450-20,000/-रुपये के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं। वे के.औसुब इकाई, आरएसपी राउरकेला में तैनात हैं, जहां उन्होंने दिनांक 1 फरवरी 2005 के पूर्वाह्न से उप महानिरीक्षक के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/के.औसुब

वित्त मंत्रालय
प्रतिभूति कागज कारखाना

होशंगाबाद-461005, दिनांक 12 फरवरी 2005

सं. 7 (151) 11643--श्री अजय कुमार अग्रवाल, तकनीकी अधिकारी, उत्पादन (समूह "ख") प्रतिभूति कागज कारखाना होशंगाबाद (म.प्र.) का दिनांक 24.01.2005 को देहान्त हो जाने के परिणाम स्वरूप उनका नाम दिनांक 25.01.2005 (पूर्वाह्न) से इस विभाग की नामावली से विलोपित किया गया।

अश्विनी कुमार
महाप्रबंधक

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग
कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय राजस्व

नई दिल्ली, दिनांक 9 फरवरी 2005

सं. प्रशा.-1/का.आ.सं.-336--इस कार्यालय के श्री अनूप सिंह लाकड़ा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी वार्धक्य आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप 28.2.2005 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो जाएंगे।

उनकी जन्म तिथि 15.2.1945 है और उनकी सरकारी सेवा आरम्भ की तिथि 9.7.1969 है।

क. प्रसाद
निदेशक (प्रशासन)

सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय

कोयम्बतूर-641018, दिनांक 23 दिसम्बर 2004

विषय : सीमा शुल्क-अंतर्देशीय आधान डिपो के लिए तिरुपुर, रेलवे माल शेड, कोनकोर, सीमा शुल्क क्षेत्र की घोषणा।

सीमा शुल्क सरल सूचना सं. 29/2004--सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 8(बी) के अंतर्गत सीमा शुल्क आयुक्त को प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एम. द्विवेदी आयुक्त, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोयम्बतूर एतद् द्वारा तिरुपुर के तोट्टिपालयम ग्राम के रेलवे माल शेड के कोनकोर अंतर्देशीय आधान डिपो के संबंध में सीमा शुल्क क्षेत्र को नीचे दिए अनुसार विनिर्दिष्ट करता हूँ।

नीचे बताए गए सीमाओं के साथ तिरुपुर रेलवे स्टेशन के रेलवे माल शेड में 0.3 एकड़ विस्तार का क्षेत्र

उत्तर में तिरुपुर रेलवे स्टेशन के रेलवे ट्रैक तक।

दक्षिण में रेलवे लॉरी पार्किंग क्षेत्र तक।

पूरुब में रेलवे माल शेड तक।

पश्चिम में रोड़ ओवर ब्रिड्ज के निकटवर्ती रेलवे ज़मीन तक।

एम. द्विवेदी
आयुक्त

विषय : सीमा शुल्क-अंतर्देशीय आधान डिपो, कोनकोर, रेलवे माल शेड, तिरुपुर-सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 45 के अंतर्गत रखवालों का अनुमोदन।

सीमा शुल्क सरल सूचना सं. 30/2004--सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 45(1) के अंतर्गत सीमा शुल्क आयुक्त को प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एम. द्विवेदी, आयुक्त, सीमा शुल्क एवं कन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोयम्बतूर एतद् द्वारा तिरुपुर के तोड़िपालयम ग्राम के रेलवे माल शेड पर स्थित अंतर्देशीय आधान डिपो, कोनकोर, रेलवे माल शेड, तिरुपुर में प्राप्त आयातित माल के लिए मेसर्स कन्टेनर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड को रखवालों के रूप में नियुक्त करता हूँ, जब तक ये घरेलू खपत के लिए हटया गया हो, या भांडागारित हो, या प्रावधानों के अनुसार जहाजों में लादा गया हो या वही अधिनियम के अध्याय-VIII। उसी प्रकार वे, स्टाफिंग, लेखा विषयक, सीमा शुल्क जाँच, परिवहन तथा आगे जहाजों में लादने हेतु गेटवे बन्दरगाहों पर सीमा शुल्क द्वारा सील किये गए कंटेनरों के सुरक्षित डिलिवरी के लिए अंतर्देशीय आधान डिपो, कोनकोर, रेलवे माल शेड में लाये गये निर्यात कारगो के भी रखवाले होंगे।

2. मेसर्स कंटेनर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड को निर्यात एवं आयात के लिए उद्देशित माल के रखवालों के रूप में सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत जारी अनुदेश एवं अधिनियम के अंतर्गत बनाये गए नियम एवं विनियमनों के साथ पठित वही अधिनियम की धारा 45 के प्रावधानों का पालन करना चाहिए।

3. मेसर्स कंटेनर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड को अंतर्देशीय आधान डिपो, रेलवे माल शेड, तिरुपुर के रखवाले के रूप में नियुक्ति पाँच वर्षों की अवधि के लिए है जो 23.12.2004 को शुरू होती है।

एम. द्विवेदी
आयुक्त

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.), पश्चिम बंगाल
कोलकाता-700001, दिनांक 3 फरवरी 2005

सं. डब्ल्यू.एम.-1/स्थापना/245--प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक.), पश्चिम बंगाल के आदेश के तहत निम्नलिखित प्रभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-II को इस आदेश के द्वारा प्रभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-I के रूप में वेतनमान रुपये 7,450-225-11,500/- में अस्थायी तथा स्थानापन्न क्षमता में प्रभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-I के रूप में प्रभार ग्रहण करने के दिनांक के प्रभाव से वर्तमान डिवीजन/प्रत्येक के नाम के समक्ष लिखित डिवीजन में अगले आदेश तक के लिए प्रोन्नति दी गई। वे प्रोन्नति के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के लिए परीक्षा में रहेंगे।

यह प्रोन्नति लोकहित में दिया गया।

क्रमांक	नाम
1	2
1.	श्री रथीन्द्र नाथ घोष
2.	श्री पूर्णोन्दु विकास होता

1	2
3.	श्री तापस कुमार भौमिक
4.	श्री सुबीर दास
5.	श्री असीम कुमार अधिकारी

उपरोक्त अधिकारी प्रोन्नत होने पर अपने वेतन निर्धारण हेतु प्रभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-I के रूप में प्रभार ग्रहण करने के दिनांक से एक महीना के अन्दर एफ.आर. 22(1)(ए)(i) के तहत अपना विकल्प प्रस्तुत करें

ह./- अपठनीय
उप महालेखाकार (लेखा)

महालेखाकार (स्थानीय निकाय लेखा परीक्षा), पश्चिम बंगाल
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग

कोलकाता-700064, दिनांक 28 दिसंबर 2004

का.आ.सं.स्था.ले.प./प्रशा./राजपत्रित अधिकारी (वरि.ले.प.अ.)/प्रमोशन/1245/97--महालेखाकार (स्था.नि.ले.प.) पश्चिम बंगाल, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के श्री अलोक भट्टाचार्या, लेखा परीक्षा अधिकारी को अगले आदेश दिये जाने तक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग में वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी पद पर रु. 8000-275-13500/- की वेतन क्रम में अस्थायी और स्थानापन्न रूप में दिनांक 3 जनवरी 2005 के पूर्वाह्न या कार्यभार ग्रहण करने की तारीख जो पीछे हो से नियुक्ति करते हैं।

नये प्रोन्नत वरि. लेखा परीक्षा अधिकारी को उनके वेतन नियंत्रण के तारीख के लिए जी.आई.एम.ओ.पी.जी. एवं पी. कार्मिक और प्रशासन सुविधा विभाग कार्यालय ज्ञापन सं. 1/10/89 स्थापना (वेतन-1) दिनांक 30 अगस्त 1989 यथा संशोधित मूल नियम 22(1)(ए)(i) के अधीन पदोन्नति की तारीख से एक महीना के अन्दर विकल्प दे दें, विकल्प एक बार देने से ही अंतिम समझा जाएगा।

सुपर्णा देब
वरि. उप महालेखाकार

महालेखाकार का कार्यालय, झारखण्ड (स्थानीय लेखा शाखा)

रांची, दिनांक 7 फरवरी 2005

एल.ए.एडमिन 1 इस्ट 1 प्रो. स.ले.प.अ. से ले.प.अ. 83/04-05--महालेखाकार (लेखा परीक्षा), झारखण्ड, रांची ने स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा के निम्नलिखित कर्मचारियों को दिनांक 1 फरवरी 2005 (पू.) से अगले आदेश तक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर रु. 7500-250-12000/- के वेतनमान में स्थानापन्न रूप से प्रोन्नति दी है--

1. श्री धीरेन्द्र नाथ सहाय
2. श्री बारीन्द्र कुमार सिंह

मार्कुस भेंगरा
स्थानीय लेखा परीक्षक

लघु उद्योग मंत्रालय
विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 फरवरी 2005

सं. ए-19018/1396/95-प्रशा. (राज.)--राष्ट्रपति फील्ड टेस्टिंग स्टेशन, बंगलौर में सहायक निदेशक (ग्रेड-II) (विद्युत), श्री पी. नानू को लघु उद्योग विकास संगठन अंतर्गत रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र, चेन्नई में सहायक निदेशक (ग्रेड-I) (विद्युत) स्थानापन्न आधारित के पद पर दिनांक 27 जनवरी, 2005 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक नियुक्त करते हैं।

एस.वि.एन. पिल्लै
उप निदेशक (प्रशा.)

खान मंत्रालय
(भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण)

कोलकाता-700016, दिनांक 31 जनवरी 2005

सं. 223/बी/ए-19011(1-एम.सी.)/04/19ए--राष्ट्रपति जी सुश्री मोनालिसा चक्र को भूवैज्ञानिक (कनिष्ठ) के पद पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में रुपए 8,000-275-13,500/- के वेतनमान के न्यूनतम वेतन में अस्थाई रूप में 31 दिसम्बर, 2004 के पूर्वाह्न से प्रभावित आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

एस.के. सिन्हा
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी
कृते महानिदेशक

सं. 237/बी/ए-19011(1-ए.आर.)/04/19ए--राष्ट्रपति जी श्रीमती अनुसूया रणसिंह को भूवैज्ञानिक (कनिष्ठ) के पद पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में रुपए 8,000-275-13,500/- के वेतनमान के न्यूनतम वेतन में अस्थाई रूप में 2 दिसम्बर, 2004 के पूर्वाह्न से प्रभावित आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

एस.के. सिन्हा
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी
कृते महानिदेशक

दिनांक 9 फरवरी 2005

सं. 544/बी/ए-32013/एस.ओ./2004/19ए--विभागीय पदोन्नति समिति के संस्तुति पर महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण श्री जे. पी. यादव, भण्डार अधीक्षक (तकनीकी), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को भण्डार अधिकारी के पद पर पदोन्नति पर इसी विभाग में रुपए 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में नियमानुसार वेतन पर

नियमित आधार पर 23 दिसम्बर 2004 (पूर्वाह्न) से प्रभावित आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

एस.के. सिन्हा
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी
कृते महानिदेशक

सं./ए-32013/सहा.भूवै./2004/19ए--विभागीय पदोन्नति समिति के संस्तुति पर महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण निम्नलिखित वरिष्ठ तकनीकी सहायकों (भूविज्ञान), की पदोन्नति पर सहायक भूवैज्ञानिक श्रेणी-I के पद पर नियुक्ति इसी विभाग में रुपए 7,500-250-12,000/- के वेतनमान में नियमानुसार वेतन पर, नियमित आधार पर प्रत्येक के सामने उल्लिखित तिथि से प्रभावित आगामी आदेशों तक अनुमोदित करते हैं :-

क्रम सं.	नाम	कार्यग्रहण की तिथि
1	2	3
01	श्री हरीश चंद्र साहु	28.09.2004 (अपराह्न)
02	श्री मल्लीपेडु संबासिव	28.09.2004 (अपराह्न)
03	श्री के. के. अधिकारी	28.09.2004 (अपराह्न)
04	श्री आबिर गुप्ता	04.10.2004 (पूर्वाह्न)
05	श्री फाल्गुनी सखा दास	28.09.2004 (अपराह्न)
06	श्री एल. के. ठाकुर	28.09.2004 (अपराह्न)
07	श्री संदीप गोस्वामी	28.09.2004 (अपराह्न)
08	श्री विनोद कुमार	28.09.2004 (अपराह्न)
09	श्री डी. पी. डंगवाल	28.09.2004 (अपराह्न)
10	डॉ. वी. बालचन्द्रुडु	28.09.2004 (अपराह्न)
11	श्री एस. टी. नरहरि	28.09.2004 (अपराह्न)
12	श्री एस. एन. मरियप्पा	28.09.2004 (अपराह्न)
13	श्री एस. चंद्रशेखरन	28.09.2004 (अपराह्न)
14	श्रीमती असीमा चौधुरी	28.09.2004 (अपराह्न)
15	श्री मरियप्पा सी. डी.	28.09.2004 (अपराह्न)
16	श्री डी. सेनगुप्ता	28.09.2004 (अपराह्न)
17	श्री यू. के. द्विवेदी	28.09.2004 (अपराह्न)
18	श्री आर. के. शर्मा	28.09.2004 (अपराह्न)
19	श्रीमती रमा राय (रुद्र)	28.09.2004 (अपराह्न)
20	श्री एम. एम. कोराकोप्पा	28.09.2004 (अपराह्न)
21	श्री आर. हनुमन्त	28.09.2004 (अपराह्न)

1	2	3
22	श्री सुभासीस कबिराज	28.09.2004 (अपराह)
23	श्री एम. ए. खंगलाह	28.09.2004 (अपराह)
24	श्री राष्ट्रपाल एच. चव्हाण	28.09.2004 (अपराह)
25	श्री शंभू नाथ	28.09.2004 (अपराह)
26	श्री रत्नेश सिंह चांदल	28.09.2004 (अपराह)
27	श्री अमिया कु. मंडल	28.09.2004 (अपराह)
28	श्री प्रदीप कु. मुखर्जी	28.09.2004 (अपराह)
29	श्री एफ. डी. नानाजी	28.09.2004 (अपराह)
30	श्री संजय हरीश चंद्र वानखेडे	28.09.2004 (अपराह)
31	श्री पीयूष साहखर	29.09.2004 (पूर्वाह)
32	श्री वुंगमारोंग सिमरे रॉकी	28.09.2004 (अपराह)
33	श्री गोतम कु. मुनियान	28.09.2004 (अपराह)
34	श्री जयंत प्रमाणिक	28.09.2004 (अपराह)

एस. के. सिन्हा
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानिदेशक

कोलकाता-700 016, दिनांक 9 फरवरी 2005

सं. 563/बी/ए-32013/ला.ले.अधि./2003/19ए--विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर राष्ट्रपति जी श्री वी. सीता रामा राव, सहायक लागत लेखा अधिकारी, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को लागत लेखा अधिकारी के रूप में पदोन्नति पर इसी विभाग में रुपए 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में नियमानुसार वेतन पर नियमित आधार पर 03.01.2005 (पूर्वाह) से प्रभावित आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

के. पी. गौतम
निदेशक (कार्मिक)
कृते महानिदेशक

भारतीय सर्वेक्षण विभाग
महासर्वेक्षक का कार्यालय

देहरादून-248001, दिनांक 4 फरवरी 2005

सं. सी-80/594--निम्नलिखित सीनियर रिप्रोग्राफर को भारतीय सर्वेक्षण विभाग में उनके नाम के सम्मुख दर्शायी गयी तिथि से नियमित आधार पर सहायक प्रबन्धक (मानचित्र पुनरुत्पादन)(सामान्य केन्द्रीय

सेवा ग्रुप 'बी' राजपत्रित) के पद पर रुपये 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में पदोन्नत किया जाता है :-

क्रम	नाम	पदोन्नति की तिथि स.
1.	श्री मलखान सिंह (अनुसूचित जन जाति)	01-12-2004

डॉ. पृथ्वीश नाग
भारत के महासर्वेक्षक

परमाणु ऊर्जा विभाग
(भारी पानी बोर्ड)

मुंबई-400 094, दिनांक 28 जनवरी 2005

संदर्भ : भाषाबो/भर्ती/1(8)-मणु/2004/201--भारी पानी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी, प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इंदौर के प्रवर श्रेणी लिपिक, श्री भूपेन्द्र सिंह मुच्छल को दिनांक 30 दिसंबर, 2004 के पूर्वाह से प्रभावी रूप में आगामी आदेशों तक रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में भारी पानी संयंत्र (मणुगुरु) में सहायक कार्मिक अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

डॉ. एस. राव
प्रशासन अधिकारी

महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 20 जनवरी 2005

सं. ए-35018/6/2002-स्था.-II--महानिदेशक नागर विमानन, नागर विमानन मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के श्री हरप्रीत सिंह, अनुभाग अधिकारी (तदर्थ) को नागर विमानन महानिदेशालय, नई दिल्ली के उड़ान प्रशिक्षण निदेशालय में 7,450-225-11,500/- रु. के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति आधार पर लेखा अधिकारी (तदर्थ) के पद पर दिनांक 20.01.2005 (पूर्वाह) से तीन महीने तक की अवधि के लिए अथवा इस पद को स्थानापन्न रूप से भरे जाने तक जो भी घटना पहले हो तक तदर्थ आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

चानन राम
उपनिदेशक प्रशासन

आयकर अपीलीय अधिकरण

मुंबई-400 020, दिनांक 3 फरवरी 2005

सं. एफ. 301-एडी(एटी)/2004--श्री प्रमोद कुमार निगम, निजी सहायक, प्रदेशीय औद्योगिक व निवेश निगम, उ.प्र. लिमि., लखनऊ को कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, (कार्मिक तथा प्रशिक्षण

विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं. 2/29/91-स्था. (वेतन-II), दिनांक 05.01.1994 में निहित तथा समय-समय पर यथासंशोधित, प्रतिनियुक्ति की सामान्य शर्तों पर, प्रतिनियुक्ति आधार पर, आयकर अपीलीय अधिकरण, लखनऊ पीठें, लखनऊ में, रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में, दिनांक 03.01.2005 (अपराह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए, स्थानापन्न रूप में, निजी सचिव के पद पर, नियुक्त किया जाता है।

विमल गौधी
अध्यक्ष

सं. एफ. 48-एडो(एटी)/2005--विभागीय प्रोन्नति समिति के सुझावों पर आयकर अपीलीय अधिकरण में तदर्थ आधार पर सहायक पंजीकार के रूप में स्थानापन्न अधिकारियों को एतद्वारा प्रोन्नति नियतांश के समक्ष अस्थायी क्षमता में दिनांक 01 फरवरी, 2005 (पूर्वाह्न) से, प्रत्येक के समक्ष उल्लिखित पीठ(ठें) में वेतनमान रु. 8,000-275-13,500/- के अन्तर्गत नियमित आधार पर स्थानापन्न किया जाता है :--

क्रमांक	नाम	न्यायपीठ/पीठें
	श्री/सर्वश्री	
1.	आर. एन. लोखंडवाला	पणजी
2.	बी. जे. सोनी	आगरा
3.	एस. के. सोनी	मुंबई
4.	एक्का पीटर	दिल्ली
5.	एस. के. रॉय	कोलकाता
6.	एस. आर. राजगोपालन	नागपुर
7.	बी. बी. चुनेकर	मुंबई

उपरोक्त उल्लिखित अधिकारीगण 01 फरवरी, 2005 से 02 वर्षों के लिए परीक्षाधीन रहेंगे।

विमल गौधी
अध्यक्ष

कम्पनी कार्य मंत्रालय
(कम्पनी कार्य विभाग)
कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शगुन टेक्सटाइल्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर-1, दिनांक 8 फरवरी 2005

सं. एल.सी.(560)/एस.ई.एस./4352/10083--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स शगुन टेक्सटाइल्स प्राईवेट

लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सरसावा फाइनेन्स एण्ड लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर-1, दिनांक 8 फरवरी 2005

सं. एल.सी.(560)/एस.ई.एस./24693/10085--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स सरसावा फाइनेन्स एण्ड लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स टाइमस इनफार्मेशन टेक्नोलोजी प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर-1, दिनांक 8 फरवरी 2005

सं. एल.सी.(560)/एस.ई.एस./16930/10087--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स टाइमस इनफार्मेशन टेक्नोलोजी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स राय बहादुर मुल्तानीमल एण्ड सन्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर-1, दिनांक 9 फरवरी 2005

सं. एल.सी.(560)/एस.ई.एस./983/10135--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स राय बहादुर मुल्तानीमल एण्ड सन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ए.एफ.डी. टैन्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर-1, दिनांक 9 फरवरी 2005

सं. एल.सी.(560)/एस.ई.एस./4480/10165--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स ए.एफ.डी. टैन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स फेलो पावरट्रानिक्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर-1, दिनांक 9 फरवरी 2005

सं. एल.सी.(560)/एस.ई.एस./21601/10167--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स फेलो पावरट्रानिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स इमबी कम्प्यूटर सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर-1, दिनांक 9 फरवरी 2005

सं. एल.सी.(560)/एस.ई.एस./11375/10169--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स इमबी कम्प्यूटर सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हितकारी आयुर्वेद प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर-1, दिनांक 9 फरवरी 2005

सं. एल.सी.(560)/एस.ई.एस./20378/10171--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स हितकारी आयुर्वेद प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गोल्ड लाइन वोस्पाईस लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर-1, दिनांक 9 फरवरी 2005

सं. एल.सी.(560)/एस.ई.एस./21851/10173--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स गोल्ड लाइन वोस्पाईस लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्रखर निवेशक लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर-1, दिनांक 9 फरवरी 2005

सं. एल.सी.(560)/एस.ई.एस./17739/10175--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स प्रखर निवेशक लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आर. के. कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर-1, दिनांक 9 फरवरी 2005

सं. एल.सी.(560)/एस.ई.एस./6613/10177--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स आर. के. कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के सम्बन्ध में।

कानपुर-1, दिनांक 9 फरवरी 2005

सं. एल.सी./560(3)/1871--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर निम्नलिखित कम्पनियों के नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनियां विघटित हो जाएगी :--

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	20-7687	मैसर्स दुर्गा प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	20-2300	मैसर्स हिन्द ट्रेडिंग एण्ड मैनुफैक्चरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
3.	20-10091	मैसर्स ए. एम. पी. इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	20-8736	मैसर्स पाल्यूट्रेट, इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	20-8591	मैसर्स कासमोस इरेक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	20-5154	मैसर्स मानसरोवर आइस एण्ड ग्लेजरल मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	20-20243	मैसर्स डब्ल्यू. एस. फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	20-1575	मैसर्स सुप्रभातम प्राईवेट लिमिटेड
9.	20-10637	मैसर्स कपुरिया प्रिन्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	20-9413	मैसर्स एस. डी. फाइनेन्सर्स लिमिटेड
11.	20-17749	मैसर्स शाम कैपिटल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
12.	20-19980	मैसर्स रिद्धी कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	20-7515	मैसर्स उत्तम हैवी इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
14.	20-24722	मैसर्स जेटली तार्पिन्स एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	20-17298	मैसर्स आशा किरन प्रापर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
16.	20-11766	मैसर्स राक्सन फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	20-2554	मैसर्स नीरू मशीन मैनुफैक्चरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
18.	20-17337	मैसर्स केन इन्वेस्टमेन्ट एण्ड फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	20-2920	मैसर्स सिंह ट्रेडिंग एण्ड बेनीफिट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
20.	20-11922	मैसर्स ओएसिस कारपेट्स प्राईवेट लिमिटेड
21.	20-17301	मैसर्स श्रीधर फाइनेन्स एण्ड सेविंग्स लिमिटेड
22.	20-7599	मैसर्स जी. एस. टेलीडायन प्राईवेट लिमिटेड
23.	20-22511	मैसर्स धाऊलरी फाइनेन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
24.	20-7954	मैसर्स माडर्न वीडियो फ्रेन्ड प्राईवेट लिमिटेड
25.	20-21988	मैसर्स प्रियंका हास्पिटल एण्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर लिमिटेड
26.	20-20605	मैसर्स मरकरी कम्प्यूनिक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
27.	20-20679	मैसर्स डॉ. बी.एल.जी. मेडिकल इन्स्टीट्यूट एण्ड रिसर्च लैब प्राईवेट लिमिटेड
28.	20-9853	मैसर्स आर. एम. मैटेलिक यार्न प्राईवेट लिमिटेड
29.	20-2977	मैसर्स मिडवे फाइनेन्स एण्ड चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड
30.	20-6947	मैसर्स कनौडिया इलेक्ट्रानिक्स प्राईवेट लिमिटेड
31.	20-14515	मैसर्स अजन्ता हायर परचेज (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
32.	20-4625	मैसर्स मोनिका केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
33.	20-12453	मैसर्स भसीन टायर रीट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
34.	20-21008	मैसर्स डी. टी. डी. मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
35.	20-8860	मैसर्स आरवी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
36.	20-7596	मैसर्स हार्ड टेम्प मेटालोजिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
37.	20-20693	मैसर्स डाकलैण्ड म्यूचुअल बेनीफिट लिमिटेड
38.	20-16497	मैसर्स जय फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मां जगदम्बे री-फैक्टरीज प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर-1, दिनांक 11 फरवरी 2005

सं. एल.सी./560(3)/5387/10151--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स मां जगदम्बे री-फैक्टरीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मुजफ्फरनगर पेपर कोर द्यूब्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर-1, दिनांक 11 फरवरी 2005

सं. एल.सी./560(3)/12622/10153--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स मुजफ्फरनगर पेपर कोर द्यूब्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मेहर इन्फोवे प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर-1, दिनांक 11 फरवरी 2005

सं. एल.सी./560(3)/25604/10155--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स मेहर इन्फोवे प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एसपिन इमिग्रेशन कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर शहर, दिनांक 11 फरवरी 2005

सं. आरओसी/560(3)/25673/9107--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स एसपिन इमिग्रेशन कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

दिवान चन्द
कम्पनी पंजीकार
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

कोच्चि-21, दिनांक 10 फरवरी 2005

सं. 560(5)/लिव्ही/587/2005--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्रम सं.	पंजीकरण सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	8032	मैसर्स सीके लैमिनेट्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	11068	मैसर्स मैनिटो इलेक्ट्रिकल एप्लाइन्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	2533	मैसर्स बिनोद काजू कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
4.	6798	मैसर्स पैलारी फाइनान्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	5842	मैसर्स ग्रन्टलाइन मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
6.	7561	मैसर्स टीप विजन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	5565	मैसर्स चोलक कान्फक्शनरी एण्ड पेस्टरीज (इण्डिया) लिमिटेड
8.	5432	मैसर्स गैंगनम इस्टेट एण्ड बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	7101	मैसर्स तेजन मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
10.	10898	मैसर्स मेगा एड प्राईवेट लिमिटेड
11.	10136	मैसर्स सेबास्टेन कम्पनी ट्रेड लिक्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
12.	10891	मैसर्स सूमी रबर्स प्राईवेट लिमिटेड	35.	3955	मैसर्स साई बिजनस कम्प्यूनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	11010	मैसर्स कल्या हरबल रेमिडिज प्राईवेट लिमिटेड	36.	14363	मैसर्स गार्जियन इन्फोटेक लिमिटेड
14.	5009	मैसर्स जोसइलेक्ट्रिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	37.	6243	मैसर्स स्वामीनाथन स्पिंगि एण्ड वीविंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	6929	मैसर्स शिवदास इन्जीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड	38.	13033	मैसर्स लार्ड्स कॉन्ट्रैक्टर्स एण्ड डिजाइनर प्राईवेट लिमिटेड
16.	4042	मैसर्स प्रीति सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	39.	11876	मैसर्स नायागरा फिल्म्स एण्ड डेवलपर्स लिमिटेड
17.	2746	मैसर्स ट्रास रेडियेटर प्राईवेट लिमिटेड	40.	3563	मैसर्स जोडियक इन्जीनियरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
18.	2719	मैसर्स स्वामी सेल्स एजेंसी प्राईवेट लिमिटेड	41.	12974	मैसर्स प्रोटेक एजेंसी प्राईवेट लिमिटेड
19.	9678	मैसर्स सोलर कार्ड्स प्राईवेट लिमिटेड	42.	10682	मैसर्स श्रीवर्धन काजू प्राईवेट लिमिटेड
20.	4742	मैसर्स सम्स्कारा पब्लिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड	43.	11790	मैसर्स एप्लाइड सिस्टम एण्ड सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
21.	13774	मैसर्स सदर्न इन्टरएक्टिव मीडिया प्राईवेट लिमिटेड	44.	5402	मैसर्स फावर्ड कैपिटल होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
22.	9080	मैसर्स नवजीवन कम्प्यूटर्स एण्ड कम्प्यूनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड	45.	8439	मैसर्स रोहित फिल्म्स प्राईवेट लिमिटेड
23.	14291	मैसर्स सैफे कस्टम्स एण्ड इन्टरप्राइसेस प्राईवेट लिमिटेड	46.	10592	मैसर्स एगफा वायरस एण्ड केबिल्स प्राईवेट लिमिटेड
24.	9307	मैसर्स चैत्रम अफुवा फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड	47.	1091	मैसर्स शिवादविजी समाजम लिमिटेड
25.	9070	मैसर्स सोवरजिन सिक्वोरिटीज प्राईवेट लिमिटेड	48.	6841	मैसर्स माक्सिम जनरल फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
26.	12113	मैसर्स कैनोपी शैल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड	49.	7109	मैसर्स लिटिल फ्लावर रबर्स प्राईवेट लिमिटेड
27.	7082	मैसर्स कोट्ययम स्कान एण्ड रिसर्च सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड	50.	2223	मैसर्स डिजाइन सेन्टर फर्नीचर प्राईवेट लिमिटेड
28.	4605	मैसर्स राजश्री मार्केटर्स प्राईवेट लिमिटेड	51.	14666	मैसर्स नेटवे ई.कॉम सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
29.	12770	मैसर्स सिलवर सायस अैक्स प्राईवेट लिमिटेड	52.	8408	मैसर्स वानया रबर्स प्राईवेट लिमिटेड
30.	11884	मैसर्स इम्पीरियल पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड	53.	9747	मैसर्स मोनी सरोज कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
31.	10013	मैसर्स अजीसियल फार्मास्यूटिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड	54.	2122	मैसर्स क्वीलोन ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
32.	5336	मैसर्स जैटकाट पेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	55.	1303	मैसर्स वनजीनाड इण्डस्ट्री लिमिटेड
33.	3933	मैसर्स माधवा चिट्स एण्ड चैरिटीज लिमिटेड	56.	13351	मैसर्स वेगा नेट-लिक्स प्राईवेट लिमिटेड
34.	5919	मैसर्स शिल्पी सीमेन्ट ब्लॉक प्राईवेट लिमिटेड	57.	7669	मैसर्स मैको (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
			58.	3610	मैसर्स त्रिचूर रियल इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
			59.	2696	मैसर्स क्रासफील्ड टायर्स लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
60.	2437	मैसर्स जैलको एंकिजम पोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	83.	7931	मैसर्स पुतूर एक्वा हैचरीज प्राईवेट लिमिटेड
61.	11992	मैसर्स क्लिफोर्ड रेमेडीस प्राईवेट लिमिटेड	84.	2336	मैसर्स केरला हायर परचेज एण्ड क्यूरीज प्राईवेट लिमिटेड
62.	11406	मैसर्स पेक्ट्रो इन्टरप्राइजेस प्राईवेट लिमिटेड	85.	11731	मैसर्स प्रिसटाइन पोलीमर्स प्राईवेट लिमिटेड
63.	9728	मैसर्स स्टारलाइट क्वेरीज प्राईवेट लिमिटेड	86.	9469	मैसर्स ए.बी. फाइनेन्स एण्ड इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
64.	2130	मैसर्स कमालिया ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	87.	5843	मैसर्स वैल्थी कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
65.	6231	मैसर्स इन्टर मैनेजमेन्ट कन्सलटेन्ट्स लिमिटेड	88.	10753	मैसर्स के.वाई. इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
66.	7016	मैसर्स धोडूपूजा फाइनेन्शियल इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड	89.	391	मैसर्स जीओ फिल्मस प्राईवेट लिमिटेड
67.	11795	मैसर्स क्वालिटी पोलीमर्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	90.	10175	मैसर्स ईशा क्रिएशन्स प्राईवेट लिमिटेड
68.	194	मैसर्स द चालाकुडी कम्पनी लिमिटेड	91.	6842	मैसर्स अन्तापुरी प्रिन्टिंग एण्ड पब्लिशिंग हाऊस प्राईवेट लिमिटेड
69.	8440	मैसर्स पैनीकर इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड	92.	13011	मैसर्स ग्रेसल साफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
70.	3455	मैसर्स प्रीमियर इण्डस्ट्रियल इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड	93.	10895	मैसर्स क्यू नेट टेक्नो प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
71.	3865	मैसर्स प्रीमियर मोजेक एण्ड कान्क्रीट वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड	94.	10707	मैसर्स ऑप्शन्स कन्सलटेन्सी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
72.	3826	मैसर्स लक्ष्मी कन्स्यूमर इयूरेबिल प्राईवेट लिमिटेड	95.	3976	मैसर्स कोकड होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
73.	3668	मैसर्स एम.सी.एम. राजन एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	96.	14439	मैसर्स विविन साफ्ट एण्ड स्टडीस प्राईवेट लिमिटेड
74.	11237	मैसर्स सुमीस एयरलिक्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	97.	11684	मैसर्स दि ग्रेट ग्रीन कन्द्री ट्रेड लिंक्स एण्ड टूर ऑपरेटर प्राईवेट लिमिटेड
75.	11017	मैसर्स प्रीमियर इन्ट्रिडिगेंड्स प्राईवेट लिमिटेड	98.	13515	मैसर्स मिलेनियम ड्रग्स एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
76.	7494	मैसर्स ग्रान्ट टेक्सटाइल्स लिमिटेड	99.	2576	मैसर्स जियो मूवीज प्रोडक्शन प्राईवेट लिमिटेड
77.	12152	मैसर्स साजू डिगीआडियो प्राईवेट लिमिटेड	100.	7030	मैसर्स नीलाका होटेल्स प्राईवेट लिमिटेड
78.	5959	मैसर्स क्लियरिटी इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	101.	7244	मैसर्स जोयविन इन्वेस्टमेन्ट्स एण्ड फाइनेन्शियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
79.	4130	मैसर्स कन्स्यूपारामबिल चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड	102.	9352	मैसर्स पेरियार होम्स प्राईवेट लिमिटेड
80.	3914	मैसर्स प्रीमियर बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड	103.	6538	मैसर्स नेक्को इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
81.	3866	मैसर्स प्रीमियर फाउन्डीज एण्ड फोरबिंग प्राईवेट लिमिटेड	104.	5583	मैसर्स केरला एसोसिएट इन्जीनियर्स कन्सट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
82.	7933	मैसर्स पुतूर पिसरीज प्राईवेट लिमिटेड	105.	12233	मैसर्स जियो ग्राफिक्स प्राईवेट लिमिटेड
			106.	13584	मैसर्स मैनपावर सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
107.	13144	मैसर्स वल्लुवनाड एडवर्टाइजिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
108.	13772	मैसर्स विक्टोरिया गोल्ड गैलरी प्राईवेट लिमिटेड
109.	13773	मैसर्स विक्टोरिया फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
110.	6524	मैसर्स ग्रीन वैली लैटेक्स प्राईवेट लिमिटेड
111.	10766	मैसर्स मेडमार्क इन्स्ट्रुमेंटेशन प्राईवेट लिमिटेड
112.	1985	मैसर्स गीपी इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
113.	11836	मैसर्स ओलिकरा इन्टरप्राइस प्राईवेट लिमिटेड
114.	5435	मैसर्स वेव इण्डिया पब्लिशर्स प्राईवेट लिमिटेड
115.	5042	मैसर्स महेश्वरी इन्जीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजिकल कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
116.	13373	मैसर्स प्युपिल्स इन्टरटेनमेन्ट नेटवर्क (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
117.	12672	मैसर्स नारायणीयम हरबल्स प्राईवेट लिमिटेड
118.	745	मैसर्स मलंकरा चिट्ठी एण्ड क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड
119.	10640	मैसर्स चेदगिरि ट्रेडर्स एण्ड रबर्स प्राईवेट लिमिटेड
120.	10436	मैसर्स वैली च्यू रबर प्राईवेट लिमिटेड
121.	10574	मैसर्स ऑटो ट्रेड लिक्स हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
122.	14700	मैसर्स सिटी फोरचून इन्टरनेट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
123.	4141	मैसर्स सिनरजिस्टिक सॉफ्टवेयर एण्ड मैनेजमेन्ट कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
124.	10335	मैसर्स डीयर एण्ड नीयर कुरीस एण्ड लोन्स प्राईवेट लिमिटेड
125.	13027	मैसर्स नेटिष इण्डिया कम्प्यूनिक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
126.	12030	मैसर्स बुल्लियन ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
127.	11847	मैसर्स ए.बी.जे. सिक्कूरिटीज प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
128.	6433	मैसर्स कीपाडास मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
129.	6483	मैसर्स नूपुरा फाइनेन्स एण्ड लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड
130.	4168	मैसर्स केरला स्ट्रक्चरल्स एण्ड वेसल्स प्राईवेट लिमिटेड
131.	11566	मैसर्स ए.टी.एम. रबर प्राईवेट लिमिटेड
132.	6165	मैसर्स शाडोक स्कीम प्राईवेट लिमिटेड
133.	9851	मैसर्स पूकुन्नाम कुरीस एण्ड लोन्स प्राईवेट लिमिटेड
134.	7004	मैसर्स मैक्सन्स शूज प्राईवेट लिमिटेड
135.	12812	मैसर्स हेमा ज्वेलर्स प्राईवेट लिमिटेड
136.	10979	मैसर्स अल-तैफ लीजिंग एण्ड फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
137.	5100	मैसर्स ट्रावनकोर स्पेसम प्राईवेट लिमिटेड
138.	3841	मैसर्स होटल अल-कालीज लिमिटेड
139.	4027	मैसर्स कटबो इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
140.	7639	मैसर्स सहया रिफाइनरीज प्राईवेट लिमिटेड
141.	9668	मैसर्स लापिज-लासुली कान्फोमेराटैस प्राईवेट लिमिटेड
142.	15127	मैसर्स मार्ग कैंटरलाइन प्राईवेट लिमिटेड
143.	13395	मैसर्स बुलवर्क डाटा सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
144.	7264	मैसर्स चैम्स होटल्स एण्ड रिसार्ट प्राईवेट लिमिटेड
145.	9933	मैसर्स केन्स ऑयल इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
146.	10899	मैसर्स ऐडियल फैंब्रिकेटर्स एण्ड इन्जीनियर्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
147.	10730	मैसर्स जियोजित कैपिटल इन्टरमीडियरीज प्राईवेट लिमिटेड
148.	10122	मैसर्स महिमा गैस एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड
149.	6237	मैसर्स पी.एन.पी. फाइनेन्स एण्ड लीज प्राईवेट लिमिटेड
150.	5703	मैसर्स हणस एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
151.	6654	मैसर्स फेडरेक्स इन्फो टेक लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
152.	13458	मैसर्स ब्रुकलान्ड्स ट्रन्सक्रिप्शन्स प्राईवेट लिमिटेड	173.	15137	मैसर्स कालिकट सिक्कुरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
153.	5376	मैसर्स देवी कार्तिका कॉमर्शियल इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड	174.	6008	मैसर्स हरिनगर रिक्रिएशन एण्ड कन्व्यूमर स्टोर्स प्राईवेट लिमिटेड
154.	7662	मैसर्स रिलेशनल फॉर्मस एण्ड एनिमल हजबेन्डरी प्राईवेट लिमिटेड	175.	6038	मैसर्स एलरेस इलेक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
155.	12222	मैसर्स रियरडन नेटवर्क डेवलपमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड	176.	14076	मैसर्स ट्रोकिया कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
156.	10145	मैसर्स नवीन ताज टॉयो स्क्वायर प्राईवेट लिमिटेड	177.	15442	मैसर्स लाम कन्सलटेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड
157.	12753	मैसर्स हाई टेक वेल्ड सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड	178.	4417	मैसर्स चेन्नैनूर सिरामिक्स प्राईवेट लिमिटेड
158.	11635	मैसर्स मट्टयत्तूर कुरीज एण्ड फाइनान्स लिमिटेड	179.	7061	मैसर्स एक्सल होमियो लेबोरेट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
159.	12366	मैसर्स पाम स्ट्रिंग होलिडेज प्राईवेट लिमिटेड	180.	13676	मैसर्स श्रीलिला भूषीज प्राईवेट लिमिटेड
160.	8142	मैसर्स हैलान्ट पोलिमर्स प्राईवेट लिमिटेड	181.	10597	मैसर्स माइक्रोमेशन टेक्नोलोजीज प्राईवेट लिमिटेड
161.	2727	मैसर्स कोचीन रबर्स मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	182.	7468	मैसर्स सुरभि कम्प्यूनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
162.	12045	मैसर्स गामा ट्रेवल प्लानर्स प्राईवेट लिमिटेड	183.	14036	मैसर्स लैमलाइट वेब इन्वोवेसन्स प्राईवेट लिमिटेड
163.	10564	मैसर्स ग्रीन अर्थ प्लानर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	184.	12650	मैसर्स ग्रेप कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
164.	4537	मैसर्स होली डिवाइन फूड इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	185.	5746	मैसर्स एलाइट बिजिनस नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड
165.	6145	मैसर्स मलयालम कोकोनट एण्ड अलाइड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	186.	6274	मैसर्स श्रीकृष्णा मैच वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
166.	9533	मैसर्स मालाबार पोलिमर्स प्राईवेट लिमिटेड	187.	3327	मैसर्स बैट स्टील कार्टिंग कम्पनी लिमिटेड
167.	11152	मैसर्स मोलायिल बेबी चिट फण्ड्स प्राईवेट लिमिटेड	188.	7350	मैसर्स त्रिवनकोर इन्फार्मेशन टेक्नोलोजीज प्राईवेट लिमिटेड
168.	3660	मैसर्स कन्ननकरा इन्डस्ट्रियल ट्रेडिंग एण्ड प्रोडक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड	189.	12838	मैसर्स रोलैण्ड मोबाइल्स एण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
169.	6553	मैसर्स फोनिकस हाऊसिंग एण्ड डेवलपर्स लिमिटेड	190.	6799	मैसर्स विवा ट्रेवल लिक्स प्राईवेट लिमिटेड
170.	12591	मैसर्स अणव्यू होस्पिटैलिटी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	191.	12619	मैसर्स हेमा फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
171.	8064	मैसर्स रीजेन्सी मेराइन प्राईवेट लिमिटेड	192.	10607	मैसर्स हेमा एक्सपोर्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
172.	11230	मैसर्स फेयर फील्ड मार्केटिंग एण्ड एक्सपोर्टर्स प्राईवेट लिमिटेड	193.	5944	मैसर्स क्लेयोनस केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
			194.	11609	मैसर्स कन्नाट्टुमिनी फाइनान्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
195.	15793	मैसर्स के.एस.ए.एसोसिएट्स इनस्ट्रुक्शंस प्राईवेट लिमिटेड	217.	7431	मैसर्स सुवासिनी होम्स प्राईवेट लिमिटेड
196.	9157	मैसर्स हेवन डेल फार्म्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	218.	7920	मैसर्स मोनु इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
197.	6484	मैसर्स मालाबार ग्रेनाइट्स प्राईवेट लिमिटेड	219.	3103	मैसर्स मिनी कम्प्यूटर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
198.	11470	मैसर्स वेदारम रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	220.	9612	मैसर्स अरिमध्या प्रोपर्टी डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
199.	4877	मैसर्स चेसर बिबरेजस एण्ड फूड प्राईवेट लिमिटेड	221.	10723	मैसर्स प्रोम्ट चिदस एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
200.	9748	मैसर्स अयिरूर कुरीस एण्ड लोन्स प्राईवेट लिमिटेड	222.	6839	मैसर्स वेल्डन कोरपोरेट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
201.	2373	मैसर्स श्रीधर फिल्म्स प्राईवेट लिमिटेड	223.	7363	मैसर्स क्लरिक्कल अक्वा बेस प्राईवेट लिमिटेड
202.	2054	मैसर्स सहाय हायर एण्ड लीज प्राईवेट लिमिटेड	224.	14819	मैसर्स फ्री डेवलपर्स नेट (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
203.	3774	मैसर्स इन्डोसोफ्ट प्राईवेट लिमिटेड	225.	12169	मैसर्स माचेम इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
204.	12601	मैसर्स निक केमिकल्स एण्ड फूड्स प्राईवेट लिमिटेड	226.	8501	मैसर्स अम्पाल्लूर फाइनान्स एण्ड इन्वेस्ट-मेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
205.	4340	मैसर्स वैसाली बैसिन्तेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड	227.	3260	मैसर्स योगक्षेम मासिका पब्लिशिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
206.	4585	मैसर्स वेसालीस प्राईवेट लिमिटेड	228.	14491	मैसर्स फाइनल सॉफ्ट मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
207.	7292	मैसर्स सेन्चुरी एजन्सीज प्राईवेट लिमिटेड	229.	5825	मैसर्स त्रिवेन्द्रम इन्टरटेनमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
208.	4035	मैसर्स मालकोट फाइनान्स एण्ड इन्वेस्ट-मेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	230.	5166	मैसर्स त्रिचूर फाउन्ड्री एण्ड इन्जीनियरिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
209.	7081	मैसर्स स्कांभि फार्म्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	231.	11415	मैसर्स इन्स्टीच्यूट ऑफ एग्रिकल्चरल साइन्स प्राईवेट लिमिटेड
210.	12517	मैसर्स गोल्डबिंग एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	232.	8657	मैसर्स गार्डेन प्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड
211.	7977	मैसर्स अल वेस्ट लीड्स प्राईवेट लिमिटेड	233.	15467	मैसर्स अफ्लेन्ट सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
212.	3214	मैसर्स बलबाल मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	234.	6939	मैसर्स एप्सन डेन्टल सिरामिक्स प्राईवेट लिमिटेड
213.	10808	मैसर्स एक्सबेक टेक्नोलोजीज प्राईवेट लिमिटेड	235.	13556	मैसर्स फुलिकुन्नेल टूरिस्ट होम प्राईवेट लिमिटेड
214.	3195	मैसर्स प्रि-स्ट्रेन्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	236.	3895	मैसर्स टी. एस. एन. फाइनान्स एण्ड ट्रेड्स प्राईवेट लिमिटेड
215.	8066	मैसर्स वीरा ओवरसीज ट्रेड्स एण्ड कोरपोरेट सर्विसेस लिमिटेड	237.	7418	मैसर्स कन्सर्ट हाऊसिंग कम्पनी लिमिटेड
216.	5663	मैसर्स ट्रावनकोर डिटेक्टिव एण्ड सेक्युरिटी पर्सनल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड			

1	2	3
238.	13933	मैसर्स बेतेल बिन्दोजस फूड एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
239.	3571	मैसर्स वृन्दावन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

एस. एम. अमीरुल मिल्लत
कम्पनी पंजीयक
केरल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों
के विषय में।

चेन्नई, दिनांक 1 फरवरी 2005

सं. 17768 से 46252 तक/560(5)/2004--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1.	17768	मैसर्स बैरवी केमिकल वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	37606	मैसर्स भारती बिल्डर्स (चेन्नई) प्राईवेट लिमिटेड
3.	38001	मैसर्स अल्फा मेटेलायस प्राईवेट लिमिटेड
4.	40616	मैसर्स रब वेयर लिमिटेड
5.	41480	मैसर्स सीफसर्ट मेरीटाइम प्राईवेट लिमिटेड
6.	44835	मैसर्स ग्रुप फोर टेक्नोलोजीज प्राईवेट लिमिटेड
7.	46252	मैसर्स श्रीराम सर्जिकल्स प्राईवेट लिमिटेड

वसंत कुमार रायल
सहायक कम्पनी पंजीयक
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों
के विषय में।

चेन्नई, दिनांक 1 फरवरी 2005

सं. 19512 से 45691 तक/560(5)/2004--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1.	19512	मैसर्स ठेक्का फार्मा प्राईवेट लिमिटेड
2.	19829	मैसर्स जेनिथ ज्वेल्लर्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	20393	मैसर्स ट्रिडेन्ट फ़ैब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	20677	मैसर्स अंबन्तूर श्रीलक्ष्मी साश्वत बेनिफिट फण्ड लिमिटेड
5.	23476	मैसर्स फ्रन्ट लाईन फाइन फार्मुलेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	22824	मैसर्स हेरिटेज सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	26238	मैसर्स वेगा कन्सल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	27452	मैसर्स च्वाइस कन्फेक्शनरी प्राईवेट लिमिटेड
9.	28106	मैसर्स वाड्डुड एक्सपोर्ट्स एण्ड इम्पोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	31254	मैसर्स मेक्सग्रोथ फाइनान्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
11.	32190	मैसर्स ट्रस्ट मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
12.	32546	मैसर्स शिवगामी सेक्युरिटीज लिमिटेड
13.	33763	मैसर्स रियो हाऊसिंग लिमिटेड
14.	37490	मैसर्स वारमित चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	37710	मैसर्स चेन्नई मारी ई. आई. लिमिटेड
16.	45691	मैसर्स युवर लायर.कॉम प्राईवेट लिमिटेड

एस. मीनाक्षी
सहायक कम्पनी पंजीयक
तमिलनाडु

SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 9th February 2005

No. F.20/2004-SCA(I)—Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to promote the following officers of this Registry to the posts and with effect from the date mentioned against each, until further orders:—

Sl. No.	Name and Designation	Post to which promoted and date
1.	Shri Harsh Kumar Bhatia, Section Officer	Promoted to officiate as Assistant Registrar with effect from February 2, 2005.
2.	Mrs. Promila Nagpal, Section Officer	Promoted to officiate as Assistant Registrar with effect from February 2, 2005.
3.	Mrs. Asha Joshi, Section Officer	Promoted to officiate as Assistant Registrar on ad-hoc basis against a purely short term temporary vacancy with effect from February 2, 2005.

ASHOK KUMAR
Additional Registrar (Admn.).

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi, the 24th January 2005

No. A-19014/1/2005-Admn.I.—The President is pleased to appoint Shri S.S. Rana, CSS, as Deputy Secretary (ad-hoc) in the Office of the Union Public Service Commission w.e.f. the forenoon of 07th January 2005 until further orders.

S. ANANDAN
Under Secy. (Admn.)

The 31st January 2005

No. A-38012/5/04-Admn.I.—The President is pleased to permit Shri C.B. Prasad, CSS, working as Deputy Secretary in UPSC to retire from Government service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 31st January 2005.

S. ANANDAN
Under Secy. (Admn.)

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 9th February 2005

No. DPPERS.I/2005/18/3/50/90-Pers.I.—Shri K. Prabhakar relinquished the charge of the post of Deputy

Superintendent of Police, Central Bureau of Investigation with effect from the afternoon of 31.1.2005 on superannuation.

S.D. BAIJAL
Admn. Officer (Pers.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DIRECTORATE GENERAL

CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

New Delhi-110003, the 10th February 2005

No. O. II-1082/78-CRC (MOs)—On his voluntary retirement Dr. Mohan Limaye, CMO (NFSG) (IRLA-1649) of 102 BN, R.A.F. made over charge of his post from the forenoon of 01/02/2005. Accordingly, his name stands-deleted from the strength of the Force from 01/02/2005 (FN).

J.N. SHARMA
Addl. DIG (Pers-I)

DIRECTORATE OF COORDINATION

(POLICE WIRELESS)

New Delhi-3, the 02 February 2005

No. A-17011/25(H-10)/2004-Admn.I.—Shri Hans Raj, Senior Accounts Officer of this Directorate has retired from Government service on attaining the age of superannuation on 31.01.2005 (AN).

KAMALESH DEKA
Director Police Telecommunications

DIRECTORATE GENERAL

CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-03, the 09th February 2005

No. E-16015/(2)/2/2003/Pers.I/04.—The President is pleased to appoint Shri N. Kindo, Inspector/Ministerial to the rank of Assistant Commandant/JAO in CISF on promotion on regular basis in the pay scale of Rs. 8000-275-13500/-. He is posted at CISF Eastern Zone Hqrs Patna, where he assumed the charge of Assistant Commandant/JAO in the Forenoon of 28th January 2005.

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

The 11th February 2005

No. E-16015/(2)/1/2002/Pers.I/05.—The President is pleased to appoint Shri V. K. Thapa, Senior Commandant to the rank of Deputy Inspector General in CISF on promotion on regular basis in the pay scale of Rs. 16,400-450-20,000/-. He is posted at CISF Unit RSP Rourkela, where he assumed the

charge of Deputy Inspector General in the Forenoon of 01st February 2005.

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

MINISTRY OF FINANCE
(SECURITY PAPER MILL)

Hoshangabad-461005, the 12th February 2005

No. 7 (151)/1643—Consequent upon the demise of Shri Ajay Kumar Agarwal, Technical Officer, Production (Group 'B'), Security Paper Mill, Hoshangabad (M. P.), on 24.01.2005 his name has been struck off from the rolls of this Department with effect from the 25.01.2005 (FN.).

ASHWINI KUMAR
General Manager

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT,
CENTRAL REVENUES

New Delhi-110002, the 10th February 2005

No. Admn. I/O.O. No. 336—Consequent upon attaining the age of superannuation, Sh. Anup Singh Lakara, Senior Audit Officer of this office will be retiring from Government Service on 28.02.2005 (AN).

His date of birth is 15.02.1945 and he joined Government service on 09.07.1969.

Sd/- ILLEGIBLE
Director (Admn.)

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
AND CENTRAL EXCISE

Coimbatore-641018, the 23rd December 2004

No. 29/2004—In exercise of the powers conferred upon the Commissioner of Customs under Section 8(b) of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), I, M. Dwivedi, Commissioner of Customs and Central Excise, Coimbatore hereby specify the Customs Area in respect of Inland Container Depot, CONCOR, Railway Goods Shed, Thottipalayam Village, Tirupur as under:—

Area measuring 0.3 acres in the Railway Goods Shed of Tirupur Railway Station with the following boundaries:—

On the North by Railway Track of Tirupur Railway Station.

On the South by Railway lorry parking area

On the East by Railway Goods shed area and

On the West by Railway land adjacent to Road over bridge.

M. DWIVEDI
Commissioner

No. 30/2004—In exercise of the powers conferred upon the Commissioner of Customs under Section 45 (1) of the Customs Act, 1962, I, M. Dwivedi, Commissioner of Customs and Central Excise, Coimbatore hereby appoint M/s. Container Corporation of India Ltd. as the Custodian of Imported Goods received at the Inland Container Depot, CONCOR, Railway Goods Shed, Tirupur situated at Railway Goods Shed, Thottipalayam village. Tiruppur until these are cleared for home consumption or warehoused or are transhipped in accordance with the provisions of Chapter VIII of the Act *ibid*. Similarly they will also be the Custodian of the Export Cargo brought in to Inland Container Depot, CONCOR, Railway Goods Shed, Tirupur for stuffing, accountal, Customs Examination, transportation and safe delivery of the Customs sealed containers at the gateway ports for onward shipment.

2. M/s. Container Corporation of India Ltd. as the Custodian of the goods meant for Export and Import shall be required to comply with the provisions of Section 45 of the Act *ibid* read with Rules and regulations framed under the Act and instructions issued under Customs Act, 1962.

3. The appointment of M/s. Container Corporation of India Ltd. as the Custodian of the Inland Container Depot, Railway Goods Shed, Tirupur is for a period of five years starting from 23.12.2004.

M. DWIVEDI
Commissioner

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT
GENERAL (A&E), WEST BENGAL

Calcutta-700001, the 3rd February 2005

No. WH-I/Estt/245—Under the orders of the Pr. A. G. (A&E), West Bengal the following Divisional Accounts Officer Grade-II are hereby promoted as Divisional Accounts Officer Grade-I in the pay scale of Rs. 7450-225-11,500/- in temporary and officiating capacity w.e.f. the date of assumption of charges as Divisional Accounts Officer Grade-I in the present divisions/division noted against each till further order(s). They will be on probation for a period of 02 (two) years from the date of promotion.

Such promotion is in the interest of the public service.

Sl. No.	Name
1	2
1.	Shri Rathindra Nath Ghosh
2.	Shri Purnendu Bikash Hota
3.	Shri Tapas Kumar Bhowmik
4.	Shri Subir Das
5.	Shri Asim Kumar Adhikary

The above named officers may submit their options under FR 22 (I) (a) (i) within one month from the date of

taking over charge as D. A. O. Grade-I for fixation of pay on promotion.

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Accountant General (A/cs)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (LOCAL
BODIES AUDIT), WEST BENGAL
(LOCAL AUDIT DEPARTMENT)

Kolkata-700064, the 14th February 2005

OFFICE ORDER

No. LA/Admn/GO (SrAO)/Prom/1245/97—The Accountant General (LBA), West Bengal, has been pleased to appoint Shri Alok Bhattacharyya, Audit Officer of the Local Audit Department on promotion to the post of Sr. Audit Officer in the Local Audit Department, Office of the Accountant General (LBA), West Bengal, in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500/- in temporary and officiating capacity with effect from the forenoon of 03.01.2005 or from the date of taking over charge, whichever is later, until further orders.

The newly promoted Sr. Audit Officer may exercise option for fixation of his pay on promotion under Rule 22(I) (a) (i) of the Fundamental Rules as amended in terms of G.I.MOP-P.G.&P, Department of Personnel and Administrative Reforms O.M. No. I/10/89-Estt. (Pay I) dated 30.08.1989, within one month from the date of promotion. Option once exercised shall be final.

SUPARANA DEB
Sr. Dy. Accountant General (LD)-I

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT),
JHARKHAND
(LOCAL AUDIT WING)

Ranchi, the 8th February 2005

No. L.A./Admn./Estt./Promo. AAO/83—The Accountant General (Audit), Jharkhand, Ranchi has been pleased to promote following Assistant Audit Officers of Local Audit Wing to officiate as Audit Officer in the same wing in the pay scale of Rs. 7500-250-12000/- with effect from 01.02.2005 (FN).

Sl. No.	Name
1.	Sri Dharendra Nath Sahai
2.	Sri Barindra Kumar Singh

MARCUS BHENGRA
Examiner of Local Accounts

MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
(SMALL SCALE INDUSTRIES)

New Delhi, the 14th February 2005

No. A-19018/1396/95-Admn (G)—The President is

pleased to appoint Shri P. Nanu, Assistant Director (Grade II) (Electrical), Field Testing Station, Bangalore as Assistant Director (Grade-I) (Electrical) on officiating basis under Small Industry Development Organisation in the pay scale of Rs. 8000-275-13500/- in Regional Testing Centre, Chennai with effect from the forenoon of 27.01.2005 until further orders.

S. V. N. PILLAI
Dy. Director (Admn.)

KHAN MANTRALAYA
(GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)

Kolkata-700016, the 31st January 2005

No. 223/B/A-19011 (I-MC)/04/19A—The President is pleased to appoint Miss Monalisa Chakra to the post of Geologist (Jr.) in Geological Survey of India in the minimum of the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of 31.12.2004 until further orders.

S. K. SINHA
Sr. Administrative Officer
for Director General

No. 237/B/A-19011 (1-AR)/04/19A—The President is pleased to appoint Smt. Anusuya Ransingh to the post of Geologist (Jr.) in Geological Survey of India in the minimum of the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of 02.12.2004 until further orders.

S. K. SINHA
Sr. Administrative Officer
for Director General

The 9th February 2005

No. 544/B/A-32013/SO/2004-19A—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the Director General, Geological Survey of India, is pleased to appoint Shri J. P. Yadav, Stores Supdt. (Tech), Geological Survey of India, to the post of Stores Officer on promotion in the same Department and on pay according to rules in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- on regular basis with effect from 23.12.2004 (FN), until further orders.

S. K. SINHA
Sr. Administrative Officer
for Director General

No. A-32013/Asstt. Geol./2004-19A—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the Director General, Geological Survey of India, is pleased to approve the appointment of the following Sr. Technical Assistant (Geology) to the post of Assistant Geologist Grade-I on promotion in the same department and on pay according

to rules in the scale of pay of Rs. 7,500-250-12,000/- with effect from the date as mentioned against each on regular basis until further orders:—

Sl. No.	Name	Date of Assumption of charge
1	2	3
1.	Shri Harish Ch. Sahu	28.09.2004 (AN)
2.	Shri Mallipeddi Sambasiva	28.09.2004 (AN)
3.	Shri K. K. Adhikar	28.09.2004 (AN)
4.	Shri Abir Gupta	04.10.2004 (FN)
5.	Shri Falguni Sakha Das	28.09.2004 (AN)
6.	Shri L. K. Thakur	28.09.2004 (AN)
7.	Shri Sandip Goswami	28.09.2004 (AN)
8.	Shri Vinod Kumar	28.09.2004 (AN)
9.	Shri D. P. Pangwal	28.09.2004 (AN)
10.	Dr. V. Balachandrudu	28.09.2004 (AN)
11.	Shri S. T. Narahari	28.09.2004 (AN)
12.	Shri S. N. Mariapaan	28.09.2004 (AN)
13.	Shri S. Chandra Sekharan	28.09.2004 (AN)
14.	Smt. Asima Chaudhuri	28.09.2004 (AN)
15.	Shri Mariyappa C. D.	28.09.2004 (AN)
16.	Shri D. Sengupta	28.09.2004 (AN)
17.	Shri U. K. Dwivedi	28.09.2004 (AN)
18.	Shri R. K. Sharma	28.09.2004 (AN)
19.	Smt. Rama Roy (Rudra)	28.09.2004 (AN)
20.	Shri M. M. Korakoppa	28.09.2004 (AN)
21.	Shri R. Hanumontha	28.09.2004 (AN)
22.	Shri Subhasis Kabiraj	28.09.2004 (AN)
23.	Shri M. A. Khanglah	28.09.2004 (AN)
24.	Shri Rashtrapal H Chavan	28.09.2004 (AN)
25.	Shri Shambhu Nath	28.09.2004 (AN)
26.	Shri Ratnesh Singh Chandal	28.09.2004 (AN)
27.	Shri Amiya Kr Mondal	28.09.2004 (AN)
28.	Shri Pradip Kr. Mukherjee	28.09.2004 (AN)
29.	Shri F. D. Nanaji	28.09.2004 (AN)
30.	Shri Sanjay Harish Ch. Wankhade	28.09.2004 (AN)
31.	Shri Pius Sahkhar	29.09.2004 (AN)
32.	Shri Wungmarong Shimray Rocky	28.09.2004 (AN)
33.	Shri Goutam Kr. Munian	28.09.2004 (AN)
34.	Shri Jayanta Pramanik	28.09.2004 (AN)

S. K. SINHA
Sr. Administrative Officer
for Director General

Kolkata-700016, the 9th February 2005

No. 563/B/A-32013/CAO/2003-19A.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the President is pleased to appoint Shri V. Sita Rama Rao, Assistant Cost Accounts Officer, Geological Survey of India on promotion as Cost Accounts Officer on pay according to rules in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- in the same Department on regular basis with effect from 03.01.2005 (FN) until further orders.

K. P. GAUTAM
Director (Personnel)
for Director General

SURVEY OF INDIA

SURVEYOR GENERAL'S OFFICE

Dehradun-248001, the 4th February 2005

No. C-80/594.—The undermentioned Senior Reprographer is hereby promoted as Assistant Manager (Map Reproduction) (GCS Group 'B' Post Gazetted) in Survey of India in the Pay Scale of Rs. 6,500-200-10,500 on regular basis w.e.f. the date as shown against his name:—

Sl.No.	Name	Date of Promotion
1.	Sh. Malkhan Singh (ST)	01.12.2004

Dr. P. NAG
Surveyor General of India

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

HEAVY WATER BOARD

Mumbai-400094, the 28th January 2005

No. HWB/R/1(8)-M/2004/201.—Chief Executive, Heavy Water Board appoints Shri Bhupendra Singh Muchhal, UDC, CAT, Indore as Assistant Personnel Officer in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500/- in Heavy Water Plant (Manuguru) with effect from the forenoon of December 30, 2004 until further orders.

D. S. RAO
Administrative Officer

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi-110003, the 20th January 2005

No. A-35018/6/2002-E-II.—The Director General of Civil Aviation is pleased to appoint Shri Harpreet Singh, Section Officer (ad-hoc) of Central Secretariat Services borne on the cadre of the Ministry of Civil Aviation to the post of Accounts Officer (ad-hoc) in the scale of pay of Rs. 7450-225-11500/- in the Directorate of Flying Training of the Office of the Director General of Civil Aviation, New Delhi on deputation basis with effect from the forenoon of January 20, 2005 for a period of

three months or till the post is filled up on regular basis whichever is earlier.

CHANAN RAM
Dy. Director of Administration

INCOME-TAX APPELLATE TRIBUNAL

Mumbai-400020, the 03rd February 2005

No. F. 301-Ad (AT)/2004.—Shri Pramod Kumar Nigam, P.A., The Pradeshia Industrial & Investment Corporation of U. P. Ltd., Lucknow is appointed to officiate as Private Secretary in the Income-tax Appellate Tribunal, Lucknow Benches Lucknow in the pay scale of Rs. 6500-200-10500 with effect from 03.01.2005 (AN) on deputation basis for a period of three years on the usual terms and conditions of deputation contained in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, (Deptt. of Personnel & Training) O.M. No. 2/29/91-Estt. (Pay-II) dated 05.01.1994 as amended from time to time.

VIMAL GANDHI
President

No. F. 48-AD (AT)/2005—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the following officials, officiating as Assistant Registrar, Income tax Appellate Tribunal, on ad hoc basis are hereby appointed to officiate on regular basis, in a temporary capacity against promotion quota with effect from the forenoon of 1st February, 2005 at the Bench/es mentioned against each respectively in the pay scale of Rs. 8000-275-13,500/-

Sl. No.	Name and designation	Bench/es where posted
	S/Shri	
1.	R. N. Lokhandwalla	Panaji
2.	B. J. Soni	Agra
3.	S. K. Soni	Mumbai
4.	Ekka Peter	Delhi
5.	S. K. Roy	Kolkata
6.	S. R. Rajagopalan	Nagpur
7.	V. V. Chuneekar	Mumbai

The Officials mentioned hereinabove will be on probation for a period of 2 years with effect from 1st February 2005.

VIMAL GANDHI
President

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS

(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shagun Textiles Private Limited

Kanpur-208001, the 08th February 2005

No. 560(5)/LC/SES/4352/10083—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shagun Textiles Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sarsawa Finance & Leasing Private Limited

Kanpur-208001, the 08th February 2005

No. 560(5)/LC/SES/24693/10085—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sarsawa Finance & Leasing Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Times Information Technology Private Limited

Kanpur-208001, the 08th February 2005

No. 560(5)/LC/SES/16930/10087—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Times Information Technology Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rai Bahadur Multanimal & Sons Private Limited

Kanpur-208001, the 09th February 2005

No. 560(5)/LC/SES/983/10135—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rai Bahadur Multanimal

& Sons Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Disha Motor & General Finance Private Limited
Kanpur-208001, the 09th February 2005

No. 560(5)/LC/SES/7402/10137—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Disha Motor & General Finance Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Yadav Oil Mills Private Limited
Kanpur-208001, the 09th February 2005

No. 560(5)/LC/SES/11876/10139—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Yadav Oil Mills Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Majestic Health Care Private Limited
Kanpur-208001, the 9th February 2005

No. 560(5)/LC/SES/23792/10141—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Majestic Health Care Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rushup Footwear Private Limited
Kanpur-208001, the 9th February 2005

No. 560(5)/LC/SES/12077/10143—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rushup

Footwear Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. S. R. V. Engineers Private Limited
Kanpur-208001, the 09th February 2005

No. 560(5)/LC/SES/9258/10145—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. S. R. V. Engineers Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Volga Construction Private Limited
Kanpur-208001, the 09th February 2005

No. 560(5)/LC/SES/13454/10147—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Volga Construction Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Skylark Impex Private Limited
Kanpur-208001, the 09th February 2005

No. 560(5)/LC/SES/16149/10149—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Skylark Impex Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Karmin Rubber Private Limited
Kanpur-208001, the 09th February 2005

No. 560(5)/LC/SES/5437/10151—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Karmin Rubber Private

Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kakran Auto Agencies Private Limited

Kanpur-208001, the 09th February 2005

No. 560(5)/LC/SES/8969/10153—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kakran Auto Agencies Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Nestler Electronics & Communication Private
Limited

Kanpur-208001, the 09th February 2005

No. 560(5)/LC/SES/11588/10155—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Nestler Electronics & Communication Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Mahadhrabad Sugar Mills Limited

Kanpur-208001, the 09th February 2005

No. 560(5)/LC/SES/20365/10157—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mahadhrabad Sugar Mills Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sharoa Computex Private Limited

Kanpur-208001, the 09th February 2005

No. 560(5)/LC/SES/17795/10159—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sharoa

Computex Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Goldline India Constructions Private Limited

Kanpur-208001, the 09th February 2005

No. 560(5)/LC/SES/15519/10161—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Goldline India Constructions Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Goldline Mutual Benefits Limited

Kanpur-208001, the 09th February 2005

No. 560(5)/LC/SES/15640/10163—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Goldline Mutual Benefits Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. A. F. D. Tanners Private Limited

Kanpur-208001, the 09th February 2005

No. 560(5)/LC/SES/4480/10165—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. A. F. D. Tanners Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Fellow Powertronic Private Limited

Kanpur-208001, the 09th February 2005

No. 560(5)/LC/SES/21601/10167—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the

Companies Act, 1956 that the name of M/s. Fellow Powertronic Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Embee Computer Systems Private Limited

Kanpur-208001, the 09th February 2005

No. 560(5)/LC/SES/11375/10169—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Embee Computer Systems Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Hitkari Ayurved Private Limited

Kanpur-208001, the 09th February 2005

No. 560(5)/LC/SES/20378/10171—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Hitkari Ayurved Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Goldline India Orchards Limited

Kanpur-208001, the 09th February 2005

No. 560(5)/LC/SES/21851/10173—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Goldline India Orchards Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Prakhar Niveshak Limited

Kanpur-208001, the 09th February 2005

No. 560(5)/LC/SES/17739/10175—Notice is hereby

given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Prakhar Niveshak Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. R. K. Construction Private Limited

Kanpur-208001, the 09th February 2005

No. 560(5)/LC/SES/6613/10177—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. R. K. Construction Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of the
following Companies

Kanpur-208001, the 09th February 2005

No. 560(3)/LC/1871—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after the expiry of three months from the date hereof the names of the following Companies, unless cause is shown to the contrary, will be struck off as defunct Companies from the Register of this office and they will be dissolved :—

Sl. No.	Co. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	20-7687	M/s. Durga Products Pvt. Ltd.
2.	20-2300	M/s. Hind Trading & Manufacturing Co. Pvt. Ltd.
3.	20-10091	M/s. A. M. P. Engineers Pvt. Ltd.
4.	20-8736	M/s. Pollutreat Engineers Pvt. Ltd.
5.	20-8591	M/s. Cosmos Erectors Pvt. Ltd.
6.	20-5154	M/s. Mansarover Ice & General Mills Pvt. Ltd.
7.	20-20243	M/s. W. S. Finance Pvt. Ltd.
8.	20-1575	M/s. Suprabhatam Pvt. Ltd.
9.	20-10637	M/s. Kapooria Printers Pvt. Ltd.
10.	20-9413	M/s. S. D. Financiers Ltd.
11.	20-17749	M/s. Shiam Capital Services Pvt. Ltd.
12.	20-19980	M/s. Riddhi Computers Pvt. Ltd.
13.	20-5715	M/s. Uttam Heavy Engineering Pvt. Ltd.

1	2	3
14.	20-24722	M/s. Jaitely Terpins & Chemicals Pvt. Ltd.
15.	20-17298	M/s. Asha Kiran Properties Pvt. Ltd.
16.	20-11766	M/s. Roxin Pharmaceuticals Pvt. Ltd.
17.	20-2554	M/s. Neeru Machine Manufacturing Co. Pvt. Ltd.
18.	20-17337	M/s. Ken Investment & Finance Pvt. Ltd.
19.	20-2920	M/s. Singh Trading & Benefit Company Pvt. Ltd.
20.	20-11922	M/s. Oasis Carpets Pvt. Ltd.
21.	20-17301	M/s. Sridhar Finance & Savings Ltd.
22.	20-7599	M/s. G. S. Teledyne Pvt. Ltd.
23.	20-22511	M/s. Dhaulri Finance Company Pvt. Ltd.
24.	20-7954	M/s. Modern Vedio Friend Pvt. Ltd.
25.	20-21988	M/s. Priyanka Hospitals & Dygnostic Centre Ltd.
26.	20-20605	M/s. Mercurry Communications Pvt. Ltd.
27.	20-20679	M/s. Dr. B. L. G. Medical Institute & Research Lab Pvt. Ltd.
28.	20-9853	M/s. R. M. Metallic Yarn Pvt. Ltd.
29.	20-2977	M/s. Midway Finance & Chit Fund Pvt. Ltd.
30.	20-6947	M/s. Kanodia Electronics Pvt. Ltd.
31.	20-14515	M/s. Ajanta Hire Purchase (India) Pvt. Ltd.
32.	20-4625	M/s. Monika Chemicals Pvt. Ltd.
33.	20-12453	M/s. Bhasin Tyre Retreaders Pvt. Ltd.
34.	20-21008	M/s. D. T. D. Marketing Pvt. Ltd.
35.	20-8860	M/s. Arvee Construction Co. Pvt. Ltd.
36.	20-7590	M/s. Hard Temp Metalurgicals Pvt. Ltd.
37.	20-20693	M/s. Dockland Mutual Benefit Ltd.
38.	20-16497	M/s. Jai Finance & Investments Ltd.

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Maa Jagdambe Refractories Private Limited

Kanpur-208001, the 11th February 2005

No. 560(3)/LC/5387/10151—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies

Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Maa Jagdambe Refractories Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Muzaffar Nagar Paper Core Tubes Private Limited

Kanpur-208001, the 11th February 2005

No. 560(3)/LC/12622/10153—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Muzaffar Nagar Paper Core Tubes Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Mehar Infoway Private Limited

Kanpur-208001, the 11th February 2005

No. 560(3)/LC/25604/10155—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Mehar Infoway Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Aspen Immigration Consultants Private Limited

Chandigarh, the 11th February 2005

No. ROC/560(3)/25673/9107—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Aspen Immigration Consultants Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the register and the said Company shall be dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of Companies Act, 1956 and of the following Companies

Kochi-682021, the 10th February 2005

Np. 560(5)/Liq/587/2005—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following companies has this day been struck off from the Register and the said Companies are dissolved :—

Sl.No.	Reg. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	8032	M/s. Ceekay Laminates Pvt. Ltd.
2.	11068	M/s. Manito Electrical Appliances Pvt. Ltd.
3.	2533	M/s. Binod Cashew Company Pvt. Ltd.
4.	6798	M/s. Paleri Finance Pvt. Ltd.
5.	5842	M/s. Frontline Marketing Pvt. Ltd.
6.	7561	M/s. Deep Vision Electronics Pvt. Ltd.
7.	5565	M/s. Cholak Confectionery Chemicals & Pasteries (India) Ltd.
8.	5432	M/s. Magnum Estates and Builders Pvt. Ltd.
9.	7101	M/s. Teejan Marketing Pvt. Ltd.
10.	10898	M/s. Mega Add Pvt. Ltd.
11.	10136	M/s. Sebastian Co. Trade Links Pvt. Ltd.
12.	10891	M/s. Sumo Rubbers Pvt. Ltd.
13.	11010	M/s. Kallya Herbal Remedies Ltd.
14.	5009	M/s. Jose Electricals Pvt. Ltd.
15.	6929	M/s. Siwadas Engineering Company Ltd.
16.	4042	M/s. Preethy Services Pvt. Ltd.
17.	2746	M/s. Trans Radiators Pvt. Ltd.
18.	2719	M/s. Swamy Sales Agencies Pvt. Ltd.
19.	14291	M/s. Sheaf Costumes and Enterprises Pvt. Ltd.
20.	9678	M/s. Solar Cards Pvt. Ltd.
21.	4742	M/s. Samskara Publications Pvt. Ltd.
22.	13774	M/s. Southern Interactive Media Pvt. Ltd.
23.	9080	M/s. Navajeevan Computers and Communications Pvt. Ltd.
24.	9307	M/s. Chaithram Aqua Farms Pvt. Ltd.
25.	9070	M/s. Sovereign Securities Pvt. Ltd.
26.	12113	M/s. Canopy Shelters Pvt. Ltd.
27.	7082	M/s. Kottayam Scan and Research Centre Pvt. Ltd.

1	2	3
28.	4605	M/s. Rajsri Marketeers Pvt. Ltd.
29.	12770	M/s. Silversys Tanks Pvt. Ltd.
30.	3933	M/s. Madhwa Chitties and Charities Ltd.
31.	5336	M/s. Jetcoat Paints Pvt. Ltd.
32.	11884	M/s. Imperial Packaging Pvt. Ltd.
33.	10013	M/s. Ajisheal Pharmaceuticals (India) Ltd.
34.	5919	M/s. Shilpi Cement Blocks Pvt. Ltd.
35.	3955	M/s. Sai Business Communications Pvt. Ltd.
36.	14363	M/s. Guardian Infotech Limited
37.	6243	M/s. Swaminathan Spinning and Weaving Mills Pvt. Ltd.
38.	13033	M/s. Lords Contractors and Designers Pvt. Ltd.
39.	11876	M/s. Nayagra Films and Developers Ltd.
40.	3563	M/s. Zodiac Engineering Company Pvt. Ltd.
41.	12974	M/s. Proatech Agencies Pvt. Ltd.
42.	10682	M/s. Srivardhan Cashews Pvt. Ltd.
43.	11790	M/s. Applied Systems and Services Pvt. Ltd.
44.	5402	M/s. Forward Capital Holdings Pvt. Ltd.
45.	8439	M/s. Rohit Films Pvt. Ltd.
46.	10592	M/s. Agfa Wires and Cables Pvt. Ltd.
47.	1091	M/s. Sivadwiji Samajam Ltd.
48.	6841	M/s. Maaxim General Foods Pvt. Ltd.
49.	7109	M/s. Little Flower Rubbers Pvt. Ltd.
50.	2223	M/s. Design Centre Furniture Pvt. Ltd.
51.	14666	M/s. Netway E-com Services Pvt. Ltd.
52.	8408	M/s. Vaanya Rubbers Pvt. Ltd.
53.	9747	M/s. Mony Saroj Company Pvt. Ltd.
54.	2122	M/s. Quilon Traders Pvt. Ltd.
55.	1303	M/s. Vanjinad Industries Limited
56.	13351	M/s. Vega Net-Links Pvt. Ltd.
57.	7669	M/s. Macho (India) Pvt. Ltd.
58.	3610	M/s. Trichur Real Estate Pvt. Ltd.
59.	2696	M/s. Crossfield Tyres Limited
60.	2437	M/s. Jelco Eximports Pvt. Ltd.
61.	11992	M/s. Clifford Remedies Pvt. Ltd.

1	2	3	1	2	3
62.	11406	M/s. Petco Enterprises Pvt. Ltd.	93.	10707	M/s. Options Consultancy Services Pvt. Ltd.
63.	9728	M/s. Starlight Kuries Pvt. Ltd.	94.	10895	M/s. Q-net Technoprojects Pvt. Ltd.
64.	2130	M/s. Kamalia Trading Company Pvt. Ltd.	95.	3976	M/s. Kokkad Holdings Pvt. Ltd.
65.	6231	M/s. Inter Management Consultants Limited	96.	14439	M/s. Veevin Soft and Studies Pvt. Ltd.
66.	7016	M/s. Thodupuzha Financial Enterprises Pvt. Ltd.	97.	11684	M/s. The Great Green Country Trade Links & Tour Operators Pvt. Ltd.
67.	11795	M/s. Quality Polymers (India) Pvt. Ltd.	98.	13515	M/s. Millennium Drugs Associates Pvt. Ltd.
68.	194	M/s. The Chalakudy Company Ltd.	99.	2576	M/s. Geo Movie Productions Pvt. Ltd.
69.	8440	M/s. Panicker Estates Pvt. Ltd.	100.	7030	M/s. Neelaka Hotels Pvt. Ltd.
70.	3455	M/s. Premium Industrial Estates Pvt. Ltd.	101.	7244	M/s. Joywin Investment and Financial Services Pvt. Ltd.
71.	3865	M/s. Premier Mosaics and Concrete Works Pvt. Ltd.	102.	9352	M/s. Periyar Homes Pvt. Ltd.
72.	3826	M/s. Laxmi Consumer Durables Pvt. Ltd.	103.	6538	M/s. Nevbro Investments Pvt. Ltd.
73.	3668	M/s. MCS Rajan and Company Pvt. Ltd.	104.	5583	M/s. Kerala Associate Engineers. Constructions Company Pvt. Ltd.
74.	11237	M/s. Sumi's Airlinks (India) Pvt. Ltd.	105.	12233	M/s. Geo Graphics Pvt. Ltd.
75.	11017	M/s. Premier Ingredients Pvt. Ltd.	106.	13584	M/s. Manpower Solutions Pvt. Ltd.
76.	7494	M/s. Grand Textiles Limited	107.	13144	M/s. Valluvanad Advertising Company Pvt. Ltd.
77.	12152	M/s. Saju Digi Audio Pvt. Ltd.	108.	13772	M/s. Victoria Gold Gallery Pvt. Ltd.
78.	5959	M/s. Clarity Investment Company Pvt. Ltd.	109.	13773	M/s. Victoria Fashions Pvt. Ltd.
79.	4130	M/s. Kanjooparambil Chit Fund Pvt. Ltd.	110.	6524	M/s. Green Valley Latex Pvt. Ltd.
80.	3914	M/s. Premier Builders Pvt. Ltd.	111.	10766	M/s. Medmark Instrumentation Pvt. Ltd.
81.	3866	M/s. Premier Foundries and Forgings Pvt. Ltd.	112.	1985	M/s. Geepee Industries Pvt. Ltd.
82.	7933	M/s. Puthur Fisheries Pvt. Ltd.	113.	11836	M/s. Olikara Enterprises Pvt. Ltd.
83.	7931	M/s. Puthur Acqua Hatcheries Pvt. Ltd.	114.	5435	M/s. Wave India Publishers Pvt. Ltd.
84.	2336	M/s. Kerala Hire Purchases and Kuries Pvt. Ltd.	115.	5024	M/s. Maheswari Engineering and Technological Consultants Pvt. Ltd.
85.	11731	M/s. Pristine Polymers Pvt. Ltd.	116.	13373	M/s. Peoples Entertainment Network (India) Pvt. Ltd.
86.	9469	M/s. A. B. Finance and Estates Pvt. Ltd.	117.	12672	M/s. Narayaneeyam Herbals Pvt. Ltd.
87.	5843	M/s. Wealthy Construction Pvt. Ltd.	118.	745	M/s. Malankara Chitty and Credit Company Ltd.
88.	10753	M/s. K. Y. Investments Pvt. Ltd.	119.	10640	M/s. Vedagiri Traders and Rubbers Pvt. Ltd.
89.	391	M/s. Geo Films Pvt. Ltd.	120.	10436	M/s. Valley View Rubber Pvt. Ltd.
90.	10175	M/s. Isha Creations Pvt. Ltd.	121.	10574	M/s. Auto Trade Links Hire Purchase Pvt. Ltd.
91.	6842	M/s. Ananthapuri Printing and Publishing House Pvt. Ltd.	122.	14700	M/s. Citifortune Internet Services Pvt. Ltd.
92.	13011	M/s. Greycel Software Pvt. Ltd.	123.	4141	M/s. Synergetic Software and Management Consultants Pvt. Ltd.

1	2	3
124.	10335	M/s. Dear and Near Kuries and Loans Pvt. Ltd.
125.	13027	M/s. Native India Communications Pvt. Ltd.
126.	12030	M/s. Bullion Traders Pvt. Ltd.
127.	11847	M/s. M. V. J. Securities Pvt. Ltd.
128.	6433	M/s. Keepadas Marketing Pvt. Ltd.
129.	6483	M/s. Noopura Finance and Leasing Pvt. Ltd.
130.	4168	M/s. Kerala Structural and Vessels Pvt. Ltd.
131.	11566	M/s. A. T. M. Rubber Pvt. Ltd.
132.	6165	M/s. Shaddock Exim Pvt. Ltd.
133.	9851	M/s. Poonkunnam Kuries and Loans Pvt. Ltd.
134.	7004	M/s. Maksons Shoes Ltd.
135.	12812	M/s. Hyma Jewellers Pvt. Ltd.
136.	10979	M/s. Al-Thaif Leasing and Finance Pvt. Ltd.
137.	5100	M/s. Travancore Spices Pvt. Ltd.
138.	3841	M/s. Hotel Al-Khaleej Ltd.
139.	4027	M/s. Kadbro Electronics Pvt. Ltd.
140.	7639	M/s. Sahya Refineries Pvt. Ltd.
141.	9668	M/s. Lapid-Lazuli Conglomerates Pvt. Ltd.
142.	15127	M/s. Marg Caterline Pvt. Ltd.
143.	13395	M/s. Bulwark Data Systems Pvt. Ltd.
144.	7264	M/s. Chemms Hotels and Resort Pvt. Ltd.
145.	9933	M/s. Kerns Oil Industries Pvt. Ltd.
146.	10899	M/s. Ideal Fabricators and Engineers Company Pvt. Ltd.
147.	10730	M/s. Geojith Capital Intermediaries Pvt. Ltd.
148.	10122	M/s. Mahima Gas Agencies Pvt. Ltd.
149.	6237	M/s. PNP Finance and Lease Pvt. Ltd.
150.	5703	M/s. Huns Associates Pvt. Ltd.
151.	6654	M/s. Federex Info Tech Pvt. Ltd.
152.	13458	M/s. Brooklands Transcriptions Pvt. Ltd.
153.	5376	M/s. Devi Karthika Commercial Enterprise
154.	7662	M/s. Relational Farms and Animal Husbandry Pvt. Ltd.

1	2	3
155.	12222	M/s. Reardon Network Development Pvt. Ltd.
156.	10145	M/s. Naveen Taj Auto Square Pvt. Ltd.
157.	12753	M/s. Hi-Tech World Systems Pvt. Ltd.
158.	11635	M/s. Mattathur Kuries & Finance Ltd.
159.	12366	M/s. Palm String Holidays Pvt. Ltd.
160.	8142	M/s. Highland Polymers Pvt. Ltd.
161.	2727	M/s. Cochin Rubber Mills Pvt. Ltd.
162.	12045	M/s. Gama Travel Planners Pvt. Ltd.
163.	10564	M/s. Green Earth Planners and Developers Pvt. Ltd.
164.	4537	M/s. Holy Divine Food Industries Pvt. Ltd.
165.	6145	M/s. Malayalam Coconut and Allied Products Pvt. Ltd.
166.	9533	M/s. Malabar Polymers Pvt. Ltd.
167.	11152	M/s. Molayil Baby Chit Funds Pvt. Ltd.
168.	3660	M/s. Kannankara Industrial Training and Productions Pvt. Ltd.
169.	6553	M/s. Phoenix Housing and Development Ltd.
170.	12591	M/s. Uniview Hospitality Services Pvt. Ltd.
171.	8064	M/s. Regency-Marines Pvt. Ltd.
172.	11230	M/s. Fair Field Marketing and Exports Pvt. Ltd.
173.	15137	M/s. Calicut Securities Pvt. Ltd.
174.	6008	M/s. Harinagar Recreation and Consumer Stores Pvt. Ltd.
175.	6038	M/s. Elrays Electronics Pvt. Ltd.
176.	14076	M/s. Trokia Consultants Pvt. Ltd.
177.	15442	M/s. Lam Consultancies Pvt. Ltd.
178.	4417	M/s. Cheruvannur Ceramics Pvt. Ltd.
179.	7061	M/s. Excel Homeo Laboratories Pvt. Ltd.
180.	13676	M/s. Srilila Movies Pvt. Ltd.
181.	10597	M/s. Micromation Technologies Pvt. Ltd.
182.	7468	M/s. Surabhi Communications Pvt. Ltd.
183.	14036	M/s. Limelight Web Innovations Pvt. Ltd.
184.	12650	M/s. Grep Consultants Pvt. Ltd.
185.	5746	M/s. Elite Business Network Pvt. Ltd.

1	2	3
186.	6274	M/s. Sreekrishna Match Works Company Ltd.
187.	3327	M/s. Bright Steel Castings Pvt. Ltd.
188.	7350	M/s. Travancore Information Technologies Pvt. Ltd.
189.	12838	M/s. Roland Mobiles and Services Pvt. Ltd.
190.	6799	M/s. Viva Travel Links Pvt. Ltd.
191.	12619	M/s. Hyma Fashions Pvt. Ltd.
192.	10607	M/s. Hyma Exports Pvt. Ltd.
193.	5944	M/s. Clayons Chemicals Pvt. Ltd.
194.	11609	M/s. Kannattu Mini Finance Pvt. Ltd.
195.	15793	M/s. K. S. A. Associates Insta Foods Pvt. Ltd.
196.	9157	M/s. Heaven Dale Farms and Resorts Pvt. Ltd.
197.	6484	M/s. Malabar Granites Pvt. Ltd.
198.	11470	M/s. Vedaram Resorts Pvt. Ltd.
199.	4877	M/s. Chaser Beverages and Foods Pvt. Ltd.
200.	9748	M/s. Ayiroor Kuries and Loans Pvt. Ltd.
201.	2373	M/s. Sreedhari Films Pvt. Ltd.
202.	2054	M/s. Sahay Hire and Lease Ltd.
203.	3774	M/s. Indosoft Pvt. Ltd.
204.	12601	M/s. Niche Chemicals and Foods Pvt. Ltd.
205.	4340	M/s. Vysali Biesynthetics Pvt. Ltd.
206.	4585	M/s. Vysales Pvt. Ltd.
207.	7292	M/s. Century Agencies Pvt. Ltd.
208.	4035	M/s. Malkot Finance and Investments Pvt. Ltd.
209.	7081	M/s. Scambi Farms and Exports Pvt. Ltd.
210.	12517	M/s. Goldwing Exports Pvt. Ltd.
211.	7977	M/s. Al Westa Leads Pvt. Ltd.
212.	3214	M/s. Balambal Mills Pvt. Ltd.
213.	10808	M/s. Xebec Technologies Pvt. Ltd.
214.	3195	M/s. Pre-Stressed Construction Company Pvt. Ltd.
215.	8066	M/s. Veera Overseas Trades and Corporate Services Ltd.
216.	5663	M/s. Travancore Detective and Security Personal Services Pvt. Ltd.

1	2	3
217.	7431	M/s. Suvasini Homes Pvt. Ltd.
218.	7920	M/s. Monu Investments Pvt. Ltd.
219.	3103	M/s. Mini Computer Services Pvt. Ltd.
220.	9612	M/s. Arimathea Property Developers Pvt. Ltd.
221.	10723	M/s. Prompt Chits & Investments Pvt. Ltd.
222.	6839	M/s. Well Done Corporate Services Ltd.
223.	7363	M/s. Kalarickal Aqua Base Pvt. Ltd.
224.	14819	M/s. Freedevelopers Net (India) Pvt. Ltd.
225.	12169	M/s. Matchem Import and Export Pvt. Ltd.
226.	8501	M/s. Ampalloor Finance and Investment Pvt. Ltd.
227.	3260	M/s. Yogashemam Masika Publishing Company Pvt. Ltd.
228.	14491	M/s. Final Soft Marketing Pvt. Ltd.
229.	5825	M/s. Trivandrum Entertainment Pvt. Ltd.
230.	5166	M/s. Trichur Foundry and Engineering Works Pvt. Ltd.
231.	11415	M/s. Institute of Agricultural Science Pvt. Ltd.
232.	8657	M/s. Garden Plast Pvt. Ltd.
233.	15467	M/s. Aflent Systems Pvt. Ltd.
234.	6939	M/s. Eapson Dental Ceramics Pvt. Ltd.
235.	13556	M/s. Pulikunnel Tourist Home Pvt. Ltd.
236.	3895	M/s. T. S. N. Finance and Trades Pvt. Ltd.
237.	7418	M/s. Concert Housing Company Ltd.
238.	13933	M/s. Bethel Beverages Food and Trading Company Pvt. Ltd.
239.	3571	M/s. Vrindavan Exports Pvt. Ltd.

S. M. AMEERUL MILLATH
Registrar of Companies
Kerala

In the matter of Companies Act, 1956 and of the
following Companies

Chennai, the 01st February 2005

No. 17768 to 46252/560(5)/2004—Notice is hereby
given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the

Companies Act, 1956 that the names of the following companies have this day been struck off from the Register and the said companies are dissolved :—

Sl.No.	Reg. No.	Name of the Company
1.	17768	M/s. Bairavi Chemical Works Pvt. Ltd.
2.	37606	M/s. Bharathi Builders (Chennai) Pvt. Ltd.
3.	38001	M/s. Alpha Metalloys Pvt. Ltd.
4.	40616	M/s. Rub Wear Ltd.
5.	41480	M/s. Seafirst Maritime Pvt. Ltd.
6.	44835	M/s. Group Four Technologies Pvt. Ltd.
7.	46252	M/s. Shreeram Surgicals Pvt. Ltd.

VASANTHA KUMAR AIL
Asstt. Registrar of Companies
Tamilnadu

In the matter of Companies Act, 1956 and of the
following Companies

Chennai, the 01st February 2005

No. 19512 to 45691/560(5)/2004—Notice is hereby
given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the
Companies Act, 1956 that the names of the following

companies have this day been struck off from the Register
and the said companies are dissolved :—

Sl.No.	Reg. No.	Name of the Company
1.	19512	M/s. Tebma Pharma Pvt. Ltd.
2.	19829	M/s. Zenith Jewellers Pvt. Ltd.
3.	20393	M/s. Trident Fabrics Pvt. Ltd.
4.	20677	M/s. Ambattur Sri Lakshmi Saswatha Benefit Fund Ltd.
5.	22824	M/s. Heritage Systems Pvt. Ltd.
6.	23476	M/s. Frontline Fine Formulations Pvt. Ltd.
7.	26238	M/s. Vega Consultants Pvt. Ltd.
8.	27452	M/s. Choice Confectionery Pvt. Ltd.
9.	28106	M/s. Wadood Exports & Imports Pvt. Ltd.
10.	31254	M/s. Maxgrowth Finance & Investments Pvt. Ltd.
11.	32190	M/s. Trust Marketing Pvt. Ltd.
12.	32546	M/s. Sivagami Securities Ltd.
13.	33763	M/s. Rio Housing Ltd.
14.	36272	M/s. Varmith Chits Pvt. Ltd.
15.	37710	M/s. Chennai Marie El Ltd.
16.	45691	M/s. Your Lawyer. Com Pvt. Ltd.

S. MEENAKSHI
Asstt. Registrar of Companies
Tamilnadu